



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112023-250132
CG-DL-E-18112023-250132

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4770]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2023/कार्तिक 26, 1945

No. 4770]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2023/KARTIKA 26, 1945

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2023

का.आ. 4979(अ).— केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के, कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1397(अ), तारीख 23 मार्च, 2023, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 23 मार्च, 2023 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 56.91 एकड़ (लगभग) या 23.03 हेक्टेयर (लगभग) है, कोयले का पूर्वोक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विहित उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 56.91 एकड़ (लगभग) या 23.03 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि तथा उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय कि सूचना देती है;

टिप्पण 1: इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी /04/2023, तारीख 23 अगस्त, 2023 का निरीक्षण, उपायुक्त, जिला लातेहार (झारखंड) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वीं मंजिल, कोर - 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 के कार्यालय में या महाप्रबंधक मगध-संघमित्रा क्षेत्र, जिला लातेहार (झारखंड) के कार्यालय में या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची (झारखंड) - 834001 या महाप्रबंधक (गवेषण विभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची - 834008, झारखंड, में किया जा सकता है।

टिप्पण - 2: उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध करता है:-

“8. अर्जन की बाबत आपत्तियां.- (1) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने के तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएँ करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएँ केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी अपत्तियों को सुनने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा, जो प्रतिकर में हित का दावा करने को हकदार होता, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।”

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वीं मंजिल, कोर - 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2518, तारीख 27 मई, 1983, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 11 जून, 1983 को प्रकाशित की गई, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

मगध ओपेनकास्ट परियोजना, मगध विस्तार -III

जिला लातेहार (झारखण्ड)

[रेखांक संख्यांक आरईवी/ 04/2023, तारीख 23 अगस्त, 2023]

सभी अधिकार:

ब्लॉक	ग्राम	थाना सं.	थाना	जिला	रकबा		टिप्पणियां
					एकड़ में	हेक्टेयर में	
ए	सेरेगड़ा	60	बालुमाथ	लातेहार	20.29	8.21	भाग
	चेटर	59	बालुमाथ	लातेहार	7.71	3.12	भाग

बी	चेटर	59	बालुमाथ	लातेहार	12.72	5.15	भाग
सी	चेटर	59	बालुमाथ	लातेहार	2.03	0.82	भाग
डी	चेटर	59	बालुमाथ	लातेहार	13.22	5.35	भाग
ई	चेटर	60	बालुमाथ	लातेहार	0.94	0.38	भाग
कुल :					56.91 एकड़ (लगभग)	23.03 हेक्टेयर (लगभग)	

मगध ओपेनकास्ट परियोजना, मगध विस्तार -III के लिए अर्जित किए जाने वाले प्लॉटों का विवरण:-

ब्लॉक -ए :

ग्राम - सेरेगड़ा:

प्लॉट संख्या - 324(भाग), 327(भाग), 480(भाग), 481(भाग), 494(भाग), 495(भाग), 500(भाग), 501(भाग), 502, 503, 504(भाग), 506(भाग), 507, 508(भाग), 509(भाग), 510(भाग), 511, 512(भाग), 513(भाग) और 514(भाग).

ग्राम- चेटर:

प्लॉट संख्या - 02(भाग), 04(भाग), 05, 06, 07(भाग), 10(भाग), 11, 12, 13(भाग), 16(भाग), 17, 18, 19, 20, 21(भाग), 27(भाग), 28(भाग), 29(भाग), 30(भाग), 31(भाग), 33(भाग), 101(भाग), 200(भाग), 201(भाग), 202(भाग), 208(भाग), 209, 210(भाग) और 211(भाग).

ब्लॉक -बी :

ग्राम- चेटर: प्लॉट संख्या - 236(भाग), 562(भाग), 565, 566(भाग) और 759.

ब्लॉक -सी :

ग्राम- चेटर: प्लॉट संख्या - 02(भाग), 214(भाग), 230(भाग), 232(भाग), 233(भाग), 234(भाग) और 563(भाग).

ब्लॉक -डी :

ग्राम- चेटर: प्लॉट संख्या - 02(भाग) और 563(भाग).

ब्लॉक -ई :

ग्राम- सेरेगड़ा: प्लॉट संख्या - 323(भाग).

सीमा वर्णन :

ब्लॉक	सीमा रेखा	सीमा वर्णन
ए	ए1 - ए2 - ए3 - ए4 - ए5 - ए6 - ए7 - ए8 - ए9 - ए10 - ए11 - ए12 - ए13 - ए14 - ए15 - ए16 - ए17 - ए18 - ए1.	रेखा बिन्दु 'ए1' से आरंभ होकर बिन्दु ए2, ए3, ए4, ए5, ए6, ए7, ए8, ए9, ए10, ए11, ए12, ए13, ए14, ए15, ए16, ए17 और ए18 से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'ए1' पर मिलती है।

बी	बी1 - बी2 - बी3 - बी4 - बी5 - बी1.	रेखा बिन्दु 'बी1' से आरंभ होकर बिन्दु बी 2, बी 3, बी 4 और बी5 से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'बी1' पर मिलती है।
सी	सी1 - सी2 - सी3 - सी4 - सी5 - सी1.	रेखा बिन्दु 'सी1' से आरंभ होकर बिन्दु सी2, सी3, सी4 और सी5 से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'सी1' पर मिलती है।
डी	डी1 - डी2 - डी3 - डी4 - डी5 - डी1.	रेखा बिन्दु 'डी1' से आरंभ होकर बिन्दु डी2, डी3, डी4 और डी5 से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'डी1' पर मिलती है।
ई	ई1 - ई2 - ई3 - ई4 - ई5 - ई1.	रेखा बिन्दु 'ई1' से आरंभ होकर बिन्दु ई2, ई3, ई4 और ई5 से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु 'ई1' पर मिलती है।

[सं. 43015/12/2020-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th November, 2023

S.O. 4979(E).—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1397(E), dated the 23rd March, 2023, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 23rd March, 2023, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 56.91 acres (approximately) or 23.03 hectares (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land prescribed in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 56.91 acres (approximately) or 23.03 hectares (approximately) and all rights in or over the said land as described in the Schedule appended hereto.

Note 1: The plan bearing number Rev/04/2023, dated the 23rd August, 2023, the area covered by this notification may be inspected at the office of the Deputy Commissioner, District Latehar (Jharkhand) or at the office of the Coal Controller, Coal Controller's Organisation, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core – II, Laxmi Nagar, Delhi - 110092 or at the office of the General Manager, Magadh-Sanghmitra Area, District Latehar, (Jharkhand) or General Manager (Land and Revenue), Central Coalfields Limited, Darbhanga, House, Ranchi – 834001, Jharkhand or General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834008, Jharkhand.

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows:-

“8. Objections to acquisition.- (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued, may within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

Explanation.- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall after hearing all such objections and after making such further inquiry if any, as he thinks necessary either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceeding held by him, for the decision of the Government.

(3) For the purposes of the section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act”.

Note 3: The Coal Controller, Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core – II, Laxmi Nagar, Delhi – 110092 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, *vide* notification number S.O. 2518, dated the 27th May, 1983 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

MAGADH OCP, MAGADH EXPANSION – III

DISTRICT- LATEHAR (JHARKHAND)

[Plan bearing number Rev/04/2023, dated the 23rd August, 2023]

ALL RIGHTS :

Block	Village	Thana No.	Thana	District	Area		Remarks
					In acres	In hectares	
A	Seregara	60	Balumath	Latehar	20.29	8.21	Part
	Chetar	59	Balumath	Latehar	7.71	3.12	Part
B	Chetar	59	Balumath	Latehar	12.72	5.15	Part
C	Chetar	59	Balumath	Latehar	2.03	0.82	Part
D	Chetar	59	Balumath	Latehar	13.22	5.35	Part
E	Seregara	60	Balumath	Latehar	0.94	0.38	Part
Total :					56.91 acres (approximately)	23.03 hectares (approximately)	

Details of Plots to be acquired for Magadh OCP, Magadh Expansion – III :

Block - A :

Village – Seregara:

Plot numbers 324(P), 327(P), 480(P), 481(P), 494(P), 495(P), 500(P), 501(P), 502, 503, 504(P), 506(P), 507, 508(P), 509(P), 510(P), 511, 512(P), 513(P) and 514(P).

Village - Chetar:

Plot numbers 02(P), 04(P), 05, 06, 07(P), 10(P), 11, 12, 13(P), 16(P), 17, 18, 19, 20, 21(P), 27(P), 28(P), 29(P), 30(P), 31(P), 33(P), 101(P), 200(P), 201(P), 202(P), 208(P), 209, 210(P) and 211(P).

Block - B :

Village - Chetar: Plot numbers 236(P), 562(P), 565, 566(P) and 759.

Block - C :

Village - Chetar: Plot numbers 02(P), 214(P), 230(P), 232(P), 233(P), 234(P) and 563(P).

Block - D :

Village - Chetar: Plot numbers 02(P) and 563(P).

Block - E :

Village – Seregara: Plot number 323(P).

Boundary description:

Block	Boundary Line	Boundary Description
A	A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A17 - A18 - A1.	Line starts from point 'A1' and passes through points A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17 and A18 and meets at starting point 'A1'.
B	B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B1.	Line starts from point 'B1' and passes through points B2, B3, B4, B5 and B6 and meets at starting point 'B1'.
C	C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C1.	Line starts from point 'C1' and passes through points C2, C3, C4, C5 and C6 and meets at starting point 'C1'.
D	D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D1.	Line starts from point 'D1' and passes through points D2, D3, D4, D5 and D6 and meets at starting point 'D1'.
E	E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E1.	Line starts from point 'E1' and passes through points E2, E3, E4, E5 and E6 and meets at starting point 'E1'.

[No. 43015/12/2020-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.